



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1009]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2015/वैशाख 24, 1937

No. 1009]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2015 /VAISAKHA 24, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2015

**का. आ.1289(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 272 (अ) तारीख 24 जनवरी, 2014, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 28 जनवरी, 2014, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पंजाब राज्य में बठिंडा से जम्मू (जम्मू कश्मीर) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 27.12.2014 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

## अनुसूची

तहसील : साहुकोट		जिला : जलंधर	राज्य : पंजाब		
क्रम सं.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	बुढेवाल (एच.बी.नं. 309)	9 // 16 / 2 9 // 15 / 2 खसरा नं. 10 // 20 / 2 चक हथिआना गाव सरहद	00 00 00	01 04 01	00 65 58
2	चक हथिआना (एच.बी.नं. 308)	10 // 1	00	03	30
3	नारंगपुर (एच.बी.नं. 307)	19 // 1 19 // 10	00 00	00 02	40 29
4	परजीआं कलां (एच.बी.नं. 320)	64 // 25 64 // 16 64 // 6 / 3 / 1 49 // 23 39 // 20	00 00 00 00 00	00 05 04 00 00	40 24 18 40 40
		39 // 8 / 1 / 1 39 // 8 / 1 / 2 ]	00	08	07
तहसील : नकोदर		जिला : जलंधर	राज्य : पंजाब		
1	खुरसैद पुर (एच.बी.नं.61)	144 पंडोरी खास और खसरा नं. 30 // 4 बीच में (सरकारी रास्ता) खसरा नं. 21 // 4 / 1 ओर 20 // 24 (सरकारी रास्ता)	00 00 00	00 00 00	98 69 68
	खुरसैद पुर (एच.बी.नं.61) (जारि.....)	20 // 24 20 // 17 / 1 20 // 14 9 // 25 / 3	00 00 00 00	01 01 00 00	71 94 40 40
2	पंडोरी खास (एच.बी.नं. 60)	55 // 3 48 // 13 / 2 48 // 8 / 4 48 // 8 / 3 48 // 8 / 1 36 // 2 / 1 14 // 7 / 3 खसरा नं. 36 // 2 / 1 और 28 // 23	00 00 00 00 00 00 00 00	01 00 00 00 01 00 04 00	43 40 40 60 39 80 78 80
3	गाधरां (एच.बी.नं.63)	37 // 19 / 1 18 // 21 3 // 24	00 00 00	02 00 07	82 76 10
4	बल हुकमी (एच.बी.नं.62)	8 // 16 / 1	00	02	25
5	लंघडा (एच.बी.नं.131)	46 // 7 / 2 खसरा नं. 28 // 1 और 20 // 21 बीच में (सरकारी रास्ता)	00 00	00 01	40 00
		7 // 18 / 1	00	01	06
6	डुरगावाल (एच.बी.नं.133)	खसरा नं. 25 // 4 / 3 और बिला नवाब गाव सरहद बीच में (सरकारी रास्ता) 4 // 18	00 00	00 00	69 40
7	बिला नवाब (एच.बी.नं.132)	35 // 20 / 1 29 // 14	00 00	00 00	40 74

		28 / / 18 / 3	00	05	98
		21 / / 23 / 1	00	01	50
8	टुट कलां (एच.बी.नं.134)	24 / / 4 / 2	00	00	71
		खसरा नं. 9 / / 23 / 2 और 9 / / 24	00	00	70
		9 / / 18	00	12	17
		8 / / 23 / 1	00	00	40
		8 / / 19	00	01	17
		8 / / 12	00	10	61
		8 / / 9	00	12	35
		8 / / 2	00	09	64
		1 / / 22	00	03	80
9	जमीअतगढ़ (एच.बी.नं.153)	17 / / 19	00	04	88
		17 / / 2	00	01	08
		खसरा नं. 17 / / 2 कंग साहिब राये गाव सरहद	00	01	53
10	कंग साहिब राये (एच.बी.नं.151)	41 / / 19 / 5	00	04	54
		41 / / 19 / 2	00	02	06
		41 / / 19 / 1	00	01	40
		41 / / 12 / 2	00	01	20
		41 / / 12 / 1	00	00	40
		41 / / 3 / 1	00	00	40
		41 / / 3 / 2	00	02	12
		38 / / 23	00	04	74
		38 / / 4	00	01	18
		खसरा नं. 31 / / 16 और 31 / / 15 बीच में (सरकारी रास्ता)	00	01	05
		16 / / 1	00	01	33
		खसरा नं. 9 / / 11 और तलवंडी भरो गाव सरहद बीच में (सरकारी रास्ता)	00	01	58
11	तलवंडी भरो (एच.बी.नं.150)	72 / / 12	00	12	52
		146	00	02	44
		65 / / 1 / 2	00	03	67
		48 / / 21 / 1	00	00	40
		48 / / 13	00	13	20
		48 / / 14	00	01	53
		खसरा नं. 23 / / 6 और उगी बीच में गाव सरहद (सरकारी रास्ता)	00	01	00
12	रसुलपुर कलां (एच.बी.नं.144)	38 / / 26	00	01	37
13	लधेवाली (एच.बी.नं.145)	13 / / 17	00	02	70
14	पसाडीआं (एच.बी.नं.321)	38 / / 8 / 3	00	00	40
		35 / / 25	00	01	77
		35 / / 16	00	02	85
		35 / / 15 / 2	00	02	48
		31 / / 20 / 1	00	00	40
		31 / / 11	00	00	89
		29 / / 26	00	00	94
		खसरा नं. 26 / / 12 और अकबरपुर खुर्द गाव सरहद बीच में (सरकारी रास्ता)	00	03	39
		13 / / 19	00	00	40
		13 / / 12	00	08	49
		13 / / 9	00	06	22

		13 / / 8	00	03	81
		8 / / 18 / 1	00	00	93
		8 / / 13	00	00	86
	पसाडीआं	6 / / 1 मीन	00	01	10
	(एच.बी.नं.321)	खसरा नं. 2 / / 19 और 2 / / 13 बीच में (सरकारी रास्ता)	00	04	51
	(जारी)	खसरा नं. 2 / / 13 और अकबरपुर खुर्द गाव सरहद बीच में (सरकारी रास्ता)	00	01	02
15	अकबरपुर खुर्द	29 / / 18	00	07	63
	(एच.बी.नं.291)	11 / / 20	00	00	81
16	मंडिआला	75 / / 14	00	00	40
	(एच.बी.नं.56)	54 / / 23 / 3	00	01	27
		54 / / 14 / 1	00	00	95
		40 / / 11 / 1	00	00	40
		खसरा नं. 27 / / 25 / 2 और 28 / / 20 / 2 बीच में (सरकारी रास्ता)	00	01	51
		24 / / 8	00	00	40
		24 / / 4	00	01	20
		13 / / 15	00	00	94
		13 / / 16 / 1	00	04	65
		14 / / 10	00	04	43
		14 / / 1 / 3	00	03	95
		8 / / 20 / 1	00	00	40
तहसील : जलंधर 2		जिला : जलंधर	राज्य : पंजाब		
1	कोहाला	खसरा नं. 57 / / 9 और 57 / / 2 बीच में (सरकारी रास्ता)	00	00	67
	(एच.बी.नं.418)	36 / / 13	00	00	40
		खसरा नं. 36 / / 4 और 27 / / 24 बीच में (सरकारी रास्ता)	00	00	67
		खसरा नं. 9 / / 24 और 9 / / 17 / 2 बीच में (सरकारी रास्ता)	00	00	67
2	अठोला	36 / / 16	00	07	00
	(एच.बी.नं. 413)	36 / / 28	00	03	80
		36 / / 15 / 3	00	01	58
		खसरा नं. 36 / / 5 / 2 मीन और 30 / / 25 / 2 बीच में (सरकारी रास्ता)	00	00	67
		खसरा नं. 30 / / 16 / 1 और 31 / / 20 मीन बीच में (सरकारी रास्ता)	00	00	77
		14 / / 20 / 1	00	03	28
		14 / / 20 / 3	00	01	09
		खसरा नं. 7 / / 21 / 1 और 7 / / 20 / 2 बीच में (सरकारी रास्ता)	00	00	67
		7 / / 11 / 2	00	02	51
		7 / / 10 / 2	00	01	80
		7 / / 20 / 2	00	01	52
		7 / / 21 / 2	00	12	10
3	खेरा मँझा	21 / / 13 / 2	00	04	79
	(एच.बी.नं. 396)	21 / / 8	00	01	03
		21 / / 3	00	00	73
4	फतेहजलाल	32 / / 25 / 2	00	00	40
	(एच.बी.नं. 392)				
5	पतड़ कलां	42 / / 4 / 1	00	01	20
	(एच.बी.नं. 390)	24 / / 25 / 2	00	01	76

6	बसरामपुर (एच.बी.नं. 391)	21 / / 23 / 2	00	12	06
		21 / / 18	00	10	33
		21 / / 17	00	01	73
		21 / / 13	00	06	02
		50	00	02	27
	बसरामपुर (एच.बी.नं. 391)	21 / / 14	00	02	44
		21 / / 7 / 2	00	06	52
	(जारी)	खसरा नं. 21 / / 14 और 21 / / 28 बीच में (सरकारी रास्ता)	00	01	28
		21 / / 28	00	02	82
		21 / / 3 / 2	00	00	40
		खसरा नं. 21 / / 28 और 21 / / 4 बीच में (सरकारी रास्ता)	00	03	50
		21 / / 4	00	11	24
7	पाड़ा पिंड (एच.बी.नं. 382)	12 / / 26	00	00	89
		12 / / 19 / 1	00	03	49
8	करतारपुर-2 (एच.बी.नं. 370)	219 / / 24	00	00	40
		219 / / 17	00	00	99
		219 / / 14	00	01	69
		218 / / 24	00	01	04
9	करतारपुर-4 (एच.बी.नं. 370)	131 / / 1 / 2 / 1	00	06	42
10	दिआलपुर (एच.बी.नं. 377)	39 / / 14	00	00	69
		39 / / 7 / 1	00	06	45
		18 / / 5 / 1	00	02	06
		5 / / 14 / 3	00	00	40
11	धीरपुर (एच.बी.नं. 375)	49 / / 7	00	06	85
		49 / / 4	00	08	18
		49 / / 3	00	04	90
		48 / / 12	00	01	46
	धीरपुर (एच.बी.नं. 375)	48 / / 1 / 1	00	03	30
		38 / / 4 / 2	00	00	67
	(जारी)	34 / / 13 / 1	00	01	02
12	कुदोवाल (एच.बी.नं. 374)	38 / / 5 / 2	00	00	40
		37 / / 25 / 6	00	01	60
		खसरा नं. 29 / / 4 और 28 / / 24 बीच में (सरकारी फुटपाथ)	00	00	68

श्रीप्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

[फा. नं. एल-14014 / 14 / 2013-जीपी]

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2015

**S.O. 1289(E).**— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 272 (E) dated the 24<sup>th</sup> January, 2014, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 28<sup>th</sup> January, 2014, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in State of Punjab for transportation of Natural Gas from Bhatinda(Punjab) to Jammu (J&K) by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 27.12.2014;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL), free from all encumbrances.

GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

#### SCHEDULE

TEHSIL: SHAHKOT		DISTRICT : JALANDHAR	STATE : PUNJAB		
Sr. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	BUDHEWAL (H.B. No. 309)	9//16/2	00	01	00
		9//15/2	00	04	65
		In Bet Khasra No. 10//20/2 & V. B. of Chak Hathiyana	00	01	58
2	CHAK HATHIYANA (H.B. No. 308)	10//1	00	03	30
3	NARANGPUR (H.B. No. 307)	19//1	00	00	40
		19//10	00	02	29
4	PARIJAIN KALAN (H.B. No. 320)	64//25	00	00	40
		64//16	00	05	24
		64//6/3/1	00	04	18
		49//23	00	00	40
		39//20	00	00	40
		39//8/1/1 39//8/1/2	00	08	07
		]			
TEHSIL: NAKODAR		DISTRICT : JALANDHAR	STATE : PUNJAB		
1	KHURSIDPUR (H.B.No. 61)	144	00	00	98
		V.B. of Pandorikhas & Khasra No. 30//4 (G/L Cart Track)	00	00	69
		In Bet Khasra No. 21//4/1 & 20//24 (G/L Cart Track)	00	00	68
	KHURSIDPUR (H.B.No. 61) (Cont...)	20//24	00	01	71
		20//17/1	00	01	94
		20//14	00	00	40
		9//25/3	00	00	40
2	PANDORI KHAS (H.B.No. 60)	55//3	00	01	43
		48//13/2	00	00	40

		48//8/4	00	00	40
		48//8/3	00	00	60
		48//8/1	00	01	39
		36//2/1	00	00	80
		14//7/3	00	04	78
		In Bet Khasra No. 36//2/1 & 28//23	00	00	80
3	GANDHARAN (H.B.No.63)	37//19/1	00	02	82
		18//21	00	00	76
		3//24	00	07	10
4	BALHUKMI (H.B.No. 62)	8//16/1	00	02	25
5	LANDHARA (H.B. No. 131)	46//7/2	00	00	40
		In Bet Khasra No. 28//1 & 20//21 (G/L Cart Track)	00	01	00
		7//18/1	00	01	06
6	DURGAWAAL (H.B.No.133)	In Bet Khasra No. 25//4/3 & V.B. of Billa Nawab (G/L Cart Track)	00	00	69
		4//18	00	00	40
7	BILLA NAWAB (H.B.No.132)	35//20/1	00	00	40
		29//14	00	00	74
		28//18/3	00	05	98
		21//23/1	00	01	50
8	TUT KALAN (H.B.No.134)	24//4/2	00	00	71
		In Bet Khasra No.9//23/2 & 9//24	00	00	70
		9//18	00	12	17
		8//23/1	00	00	40
		8//19	00	01	17
		8//12	00	10	61
		8//9	00	12	35
		8//2	00	09	64
		1//22	00	03	80
9	JAMITGHADH (H.B.No.153)	17//19	00	04	88
		17//2	00	01	08
		In Bet Khasra No.17//2 & V.B. of Kang Sahib Rai	00	01	53
10	KANG SAHIB RAI (H.B. No. 151)	41//19/5	00	04	54
		41//19/2	00	02	06
		41//19/1	00	01	40
		41//12/2	00	01	20
		41//12/1	00	00	40
		41//3/1	00	00	40
		41//3/2	00	02	12
		38//23	00	04	74
		38//4	00	01	18
		In Bet Khasra No. 31//16 & 31//15 (G/L Cart Track)	00	01	05
		16//1	00	01	33
		In Bet Khasra No. 9//11 & V.B. Of Talwandi Bhro (G/L Cart Track)	00	01	58
11	TALWANDI BHRO (H.B.No.150)	72//12	00	12	52
		146	00	02	44
		65//1/2	00	03	67

		48//21/1	00	00	40
		48//13	00	13	20
		48//14	00	01	53
		In Bet Khasra No. 23//6 & V.B. of Uggi (G/L Cart Track)	00	01	00
12	RASULPUR KALAN (H.B.No.144)	38//26	00	01	37
13	LADDHEWALI (H.B. No. 145)	13//17	00	02	70
14	PASSARIAN (H.B.No.321)	38//8/3	00	00	40
		35//25	00	01	77
		35//16	00	02	85
		35//15/2	00	02	48
		31//20/1	00	00	40
		31//11	00	00	89
		29//26	00	00	94
		In Bet Khasra No. 26//12 & V.B. of Akbarpur Khurd (G/L Cart Track)	00	03	39
		13//19	00	00	40
		13//12	00	08	49
		13//9	00	06	22
		13//8	00	03	81
		8//18/1	00	00	93
		8//13	00	00	86
	PASSARIAN (H.B.No.321)	6//1 Min	00	01	10
		In Bet Khasra No.2//19 & 2//13 (G/L Asphalted Road)	00	04	51
	(Cont...)	In Bet Khasra No.2//13 & V.B. of Akbarpur Khurd (G/L Asphalted Road)	00	01	02
15	AKBARPUR KHURD (H.B.No.291)	29//18	00	07	63
		11//20	00	00	81
16	MANDIALA (H.B.No.56)	75//14	00	00	40
		54//23/3	00	01	27
		54//14/1	00	00	95
		40//11/1	00	00	40
		In Bet Khasra No. 27//25/2 & 28//20/2 (G/L Cart Track)	00	01	51
		24//8	00	00	40
		24//4	00	01	20
		13//15	00	00	94
		13//16/1	00	04	65
		14//10	00	04	43
		14//1/3	00	03	95
		8//20/1	00	00	40
TEHSIL: JALANDHAR-II			DISTRICT : JALANDHAR		STATE : PUNJAB
1	KOHALA (H.B. No. 418)	In Bet Khasra No. 57//9 & 57//2 (G/L Cart Track)	00	00	67
		36//13	00	00	40
		In Bet Khasra No. 36//4 & 27//24 (G/L Cart Track)	00	00	67
		In Bet Khasra No. 9//24 & 9//17/2 (G/L Cart Track)	00	00	67



2	ATHAULA (H.B. No. 413)	36//16	00	07	00
		36//28	00	03	80
		36//15/3	00	01	58
		In Bet Khasra No.36//5/2 Min & 30//25/2 (G/L Cart Track)	00	00	67
		In Bet Khasra No.30//16/1 & 31//20 Min (G/L Cart Track)	00	00	77
		14//20/1	00	03	28
		14//20/3	00	01	09
		In Bet Khasra No.7//21/1 & 7//20/2 (G/L Cart Track)	00	00	67
		7//11/2	00	02	51
		7//10/2	00	01	80
		7//20/2	00	01	52
		7//21/2	00	12	10
3	KHAIRA MAJHA (H.B. No. 396)	21//13/2	00	04	79
		21//8	00	01	03
		21//3	00	00	73
4	FATEH JALAL (H.B. No. 392)	32//25/2	00	00	40
5	PATTAR KALAN (H.B. No. 390)	42//4/1	00	01	20
		24//25/2	00	01	76
6	BASRAMPUR (H.B. No. 391)	21//23/2	00	12	06
		21//18	00	10	33
		21//17	00	01	73
		21//13	00	06	02
		50	00	02	27
	BASRAMPUR (H.B. No. 391)	21//14	00	02	44
		21//7/2	00	06	52
	(Cont...)	In Bet Khasra No. 21//14 & 21//28 (G/L Asphalted Road)	00	01	28
		21//28	00	02	82
		21//3/2	00	00	40
		In Bet Khasra No. 21//28 & 21//4 (G/L Cart Track)	00	03	50
		21//4	00	11	24
7	PARA PIND (H.B. No. 382)	12//26	00	00	89
		12//19/1	00	03	49
8	KARTARPUR 2 (H.B. No. 370)	219//24	00	00	40
		219//17	00	00	99
		219//14	00	01	69
		218//24	00	01	04
9	KARTARPUR 4 (H.B. No. 370)	131//1/2/1	00	06	42
10	DIYALPUR (H.B. No. 377)	39//14	00	00	69
		39//7/1	00	06	45
		18//5/1	00	02	06
		5//14/3	00	00	40
11	DHEERPUR (H.B. No. 375)	49//7	00	06	85
		49//4	00	08	18

		49//3	00	04	90
		48//12	00	01	46
	<b>DHEERPUR</b>	48//1/1	00	03	30
	(H.B. No. 375)	38//4/2	00	00	67
	(Cont...)	34//13/1	00	01	02
12	<b>KUDOWAL</b>	38//5/2	00	00	40
	(H.B. No. 374)	37//25/6	00	01	60
		In Bet Khasra No. 29//4 & 28//24	00	00	68
		(G/L Foot Path)			

[F.No. L-14014 / 14 / 2013-GP]

S. P. AGARWAL, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 6 मई, 2015

**का. आ.1290(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 271 (अ) तारीख 24 जनवरी, 2014, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 28 जनवरी, 2014, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पंजाब राज्य में बठिंडा से जम्मू (जम्मू कश्मीर) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 22.12.2014 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

**अनुसूची**

तहसील : भोगपुर		जिला : जलंधर	राज्य : पंजाब		
क्रम सं.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
1	2	3	हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	खोजपुर (एच.बी.नं. 13)	43 / / 1	00	00	40
		43 / / 2 / 2	00	00	40
		42 / / 9 / 2	00	00	40
		42 / / 3 / 3	00	02	69
		41 / / 1 / 1	00	00	60

2	सगरावाली (एच.बी.नं. 129)	3 / / 11 / 1 3 / / 9	00 00	04 00	01 40
3	पतिआला (एच.बी.नं. 77)	26 / / 4 / 1 26 / / 4 / 2	00	04	80
4	कुरेष्ठीआं (एच.बी.नं. 76)	6 / / 19 / 3 / 1 6 / / 20 / 1 / 1 6 / / 20 / 1 / 2 मीन	00 00	05 06	12 24
5	खरल कलां (एच.बी.नं. 2)	28 / / 27	00	00	66
6	चमिअरी (एच.बी.नं. 5)	7 / / 18 / 1 6 / / 13 / 2 / 1 5 / / 10 / 2 / 1 5 / / 6 / 3 5 / / 6 / 4	00 00 00 00 00	02 00 00 04 04	36 40 40 09 52

श्रीप्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

[फा. नं. एल 14014 / 14 / 2013—जीपी]

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th May, 2015

**S.O. 1290(E).**— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 271 (E) dated the 24<sup>th</sup> January, 2014, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra ordinary Gazette of India dated the 28<sup>th</sup> January, 2014, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in State of Punjab for transportation of Natural Gas from Bhatinda(Punjab) to Jammu (J&K) by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL);

And whereas copies of the said Extra ordinary Gazette notification were made available to the public up to 22.12.2014;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL), free from all encumbrances.

GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

## SCHEDULE

TEHSIL: BHOGPUR		DISTRICT : JALANDHAR		STATE : PUNJAB	
Sr. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	KHOJPUR	43//1	00	00	40
	(H.B. No. 13)	43//2/2	00	00	40
		42//9/2	00	00	40
		42//3/3	00	02	69
		41//1/1	00	00	60
2	SAGRAN WALI	3//11/1	00	04	01
	(H.B. No. 129)	3//9	00	00	40
3	PATIAAL	26//4/1	00	04	80
	(H.B. No. 77)	26//4/2			
4	KURESHIAN	6//19/3/1	00	05	12
	(H.B. No. 76)	6//20/1/1	00	06	24
		6//20/1/2 Min			
5	KHARL KALAN	28//27	00	00	66
	(H.B. No. 2)				
6	CHAMIARI	7//18/1	00	02	36
	(H.B. No. 5)	6//13/2/1	00	00	40
		5//10/2/1	00	00	40
		5//6/3	00	04	09
		5//6/4	00	04	52

[F.No. L-14014 / 14 / 2013-GP]

S. P. AGARWAL, Under Secy.